

JAY USHIN LIMITED

(A Joint Venture With USHIN LTD. JAPAN)

G.P. 14, HSIIDC INDL. ESTATE, SECTOR-18, GURGAON - 122 001 HARYANA (INDIA) Phone: 0124-4623400 Fax: 0124-4623403 E-mail: info@jushinindia.com Website: www.jpmgroup.co.in CIN: L52110DL1986PLC025118

May 31, 2022

To

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Scrip Code: 513252

Subject: Submission of advertisement published in newspaper

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 we are enclosing herewith copy of advertisement published on Monday May 30, 2022 in Business Standard (English Newspaper) and Business Standard (Hindi Newspaper) in respect of request received from Shareholders for issue of Duplicate Share Certificate.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully Jay Ushin Limited

Ashwani Minda

Managing Director

DIN - 00049966

JAY USHIN LIMITED

CIN: L52110DL1986PLC025118 GI-48, G.T Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033 Tel:011- 43147700 | E-mail: julinvestors@jushinindia.com Website: www.jpmgroup.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) has/have been reported as lost/misplaced and the holders of the Shares Certificate(s) have applied to the Company for the issue of Duplicate Share Certificate:

		Name of the Shareholder	Folio No.	Share Certificate No.	No. of Shares	Distinctive Nos.	
	1.	Surjeet Kumar	S000908	7629	100	2437401-	
		Nagpal and				2437500	
		Rekha Nagpal					

Any persons(s) who has/have any claim in respect of the said certificate(s) should lodge such claim(s) with the Share Department of the Company at JAY USHIN LIMITED, GI-48, G. T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033, within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the above mentioned shareholders.

For Jay Ushin Limited Sd/-(Jyoti Kataria) Date: 28/05/2022 Company Secretary Place: Gurugram

ATN INTERNATIONAL LIMITED

Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 Email: atninternationallimited@gmail.com, website: www.atninternational.in
Phone No. 033-40022880, Fax: 91-33-22379053
CIN: L65993WB1983PLC080793 EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022 (Rs

THE GOARTER AND TEAR ENDED STOT MARKOTI, 2022 (RS. In Lacs)											
SL	Particulars	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)							
1	Total Income from Operations	4.99	8.72	5.88							
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(6.25)	(36.63)	(554.07)							
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(6.25)	(36.63)	(554.07)							
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(6.25) (36.63)		(554.07)							
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1	ı	-							
6	Equity Share Capital	1578.00	1578.00	1578.00							
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-							
8	Earnings Per Share (of Rs.4/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic:	(0.02)	(0.09)	(1.40)							
	2 Diluted	(0.02)	(0.09)	(1.40)							

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com and on the Company's website: www.atninternational.in.

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial m(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c)# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

By order of the Board For ATN INTERNATIONAL LIMITED Sd/- Santosh Kumar Jair Place: Kolkata Managing Director DIN NO. 00174235 Date: 28th May, 2022

Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 Email: silivally@gmail.com, website: www.siliconvalleyinfo.co.in Phone No.033-40022880, Fax - 033-22379053 CIN: L15311WB1993PLC061312 EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

		Quarter Ended	(Rs. in Lacs) Year Ended	
SL	Particulars	31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	2.94
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(9.20)	(29.43)	(30.34)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(9.20)	(29.43)	(30.34)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(9.20)	(30.34)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(9.20)	(29.43)	(30.34)
6	Equity Share Capital	1296.80	1296.80	1296.80
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic:	(0.01)	(0.02)	(0.02)
	2. Diluted	(0.01)	(0.02)	(0.02)

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com and www.cse india.com and on the Company's website: www.siliconvalleyinfo.co.in

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c)#-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

By order of the Board For SILICON VALLEY INFOTECH LTD Sd/- SANTOSH KUMAR JAIN Place: Kolkata Managing Director DIN: 00174235 Date: 27th May, 2022

PUBLIC NOTICE

t is informed that the under noted share certificates along with related share transfe ocuments have been misplaced and are not traceable.

Shareholder: Sh. Avneesh Kumar Singh; Folio No – A-001; Certificate No (Distinctive Nos – 001(01-100); 002(101-200); 003(201 – 300); 006(140301 – 245300) 007(245301–295300);`008(295301-355300); 010(405301-480300); 013(670301 760300): 014(760301-810300): 015(810301-860300): 016(860301-905300) 017(905301-952800); 018(952801-1042800); 021(1152801-1202800); 022(1202801 (302800): 023(1302801-1352800): 024(1352801-1397800): 025(1397801-1427800) 026(1427801-1477800); 027(1477801-1550300); 028(1550301-1590300); 029(1590301 1700300); 030(1700301-1750300); 032(1836701-1864000); 033(1864001-1884300) 034(1884301-1920000); 035(1920001-1980000); 036(1980001-2040000); 038(2116201 2131000); 039(2131001-2210000); 040(2210001-2250000); 041(2250001-2370000) 045(2645001-2685000); 046(2685001-2785000); 047(2785001-2835000); 048(2835001 2935000); 054(3394001-3414000); 056(3459001-3659000); 057(3659001-3719000) 059(3869001-3979000): 061(4429001-4579000): 062(4579001-4679000): 065(495000 5000000); 066(5000001-5100000); 067(5100001-5200000); 068(5200001-5530000) 071(5610001-5660000); 073(5760001-5820000); 076(6041001-6141000); 078(6201001 6251000); 079(6251001-6321000); 081(6381001-6531000). Shareholder: Vishar Chandra Verma; Folio No – V-001; Certificate No (Distinctive Nos) – 020(1102801 1152800); 044(2495001-2645000); 049(2935001-2985000); 055(3414001-3459000) 063(4679001-4850000). Shareholder: Jatin Verma; Folio No – J-003; Certificate N Distinctive Nos) - 004(301-90300); 012(530301-670300); 050(2985001-3035000) 053(3344001-3394000); 082(6531001-6581000) Shareholder: Asheesh Kumar Singh Folio No – A-007; Certificate No (Distinctive Nos)–011(480301-530300); 052(3244001 3344000); 058(3719001-3869000); 075(5861001-6041000). Shareholder: Anshu Suryavanshi; Folio No – A-008; Certificate No (Distinctive Nos) – 043(2445001-2495000) 064(4850001-495000); 070(5560001-5610000) Shareholder: Nitin Kumar Verma; Folio No - N-007; Certificate No (Distinctive Nos) - 051(3035001-3244000); 072(566000 Treson, Certificate No. (Distinctive Nos) – 031(17503001-1244000), 074(5820001-5861000). Shareholder: Abhinav Kumar Singh; Folio No – A-010 Certificate No. (Distinctive Nos) – 060(3979001-4429000); 080(6321001-6381000). Shareholder: Bal Kishor Verma; Folio No – B-002; Certificate No. (Distinctive Nos) – 031(1750301-1836700). Shareholder: Anita; Folio No – A-003; Certificate No. (Distinctive Nos) – 031(1750301-1836700). Nos) - 037(2040001-2116200) Shareholder: Venus Satiate Vehicles Services Pvt. Ltd. Folio No – V-007:Certificate No (Distinctive Nos) – 005(90301-140300): 009(35530) 105300); 019(1042801-1102800); 042(2370001-2445000); 069(5530001-5560000 077(6141001-6201000); 083(6581001-6741000)

The Company invites claims and objections from claimants / objector or objectors fo issuance of duplicate Share Certificate(s) within the period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his her/ their claims / objections for issuance of duplicate Share Certificate to The Manager SNG Developers Ltd, Flat No 112, Indraprakash Building, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001. If no claims / objections are received within the period prescribed above, the Company shall be free to issue duplicate Share Certificate in such manner as is provided under the provisions of law.

For and on behalf of SNG Developers Ltd Sd/

कार्यालय गिरिडीह नगर निगम जे०पी०चौक, गिरिडीह

Telephone no. 06532 250279, Email id (giridihmunicipalcorporation@gmail.com)

<u>शुद्धि पत्र</u>

एतद द्वारा सचित किया जाता है कि प्रकाशित PR.No.269929 प्रकाशित निविदा में आंशिक संशोधन किया जा रहा है जो निम्न है :-

טראטינע	पूप न प्रकाशित विपरण	त्रशावित विषर्
01.	Term & Condition के शर्त सं0 35 Vehicle	Term & Condition के शर्त सं0 35 Vehicle registration
	registration paper must submitted.	paper must submitted. को रद्द किया जाता है।
02.	Term & Condition के शर्त संo 36 Pollution certificate of vehicle, insurance paper, Fitness Certificate and Goods Carriage Permit must submitted by Tenderer.	Term & Condition के शर्त संत 36 Pollution certificate of vehicle, insurance paper, Fitness Certificate and Goods Carriage Permit must submitted by Tenderer . को रह किया जाता है।

03. Term & Condition में वैसे संवेदक जिनके पास स्वयं अपनी Boring vehicle, गिरिडीह नगर निगम में रजिस्टर्ड नहीं है, वो Agreement/Lease between the registered owner of Rig Machine (Boring Machine) in Municipal Corporation, Giridih and contractors shall be enclosed in technical bid. शर्त जोड़ा जाता है । पढ़ा जाय । अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

PR 270393 Urban Development (22-23) D

गिरिडीह नगर निगम

NEWSPAPER ADVERTISEMENT Before the Central Government Registrar of Companies, Delhi

n the matter of sub-section (3) of Section 13 imited Liability Partnership Act, 2008 and rule 1 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnershi Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of HOME DREAM ASSOCIATES LLP having it registered office at HOUSE NO 130 GROUNI FLOOR PKT 1 SEC 24 ROHINI DELHI - 11008

otice is hereby given to the General Public tha ne LLP proposes to make a petition to Registra f Companies, Delhi under section 13 (3) of the imited Liability Partnership Act, 2008 seekin ermission to change its Registered office fror ne state of "Delhi" to the state of "Punjab". ny person whose interest is likely to be affecte vny person whose interest is likely to be a affected by the proposed change of the registered offico of the LLP may deliver or cause to be delivered o send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature o iis/her interest and grounds of opposition upported by an affidavit to the Registrar o Companies, Delhi, within 21 (twenty one) day rom the date of publication of this notice with copy to the petitioner LLP at its registered office a he address mentioned shows.

For and on behalf o SUSHIL SACHDEV Date: 30.05.2022



STATE BANK OF INDIA Retail Assets Central Processing Cell (16683) F-40, Second Floor, Ring Road, South Ex.-I, New Delhi-110049 Email: sbi.16683@sbi.co.in Home Loan No. 10004230163

POSSESSION NOTICE

[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] For Immovable Property Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of State Bank of India under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security nterest Act-2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read wit (Rule 3) of the security interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice dated 04.02.2022 calling upon the borrower Shri Ajay Singh, Flat No: F-1 First Floor, LIG Plot No S-5. Shalimar Garden Extension-2, Block A, Village Pasonda Loni Ghaziabad 201005 to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 2.09.891/- (Rupees Two Lakhs Nine Thousand Eight Hundred and Ninety One Only) + Interest + Future Interest + Incidental Expenses + Costs + Other Charges within 60 days from the date of

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrowe Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sectio 13(4) of the said act read with Rule-8 of the said rule on this 25th day of May 2022.

The borrower/guarantor in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be the subject to the charge of the state Bank of India for being Rs. 2,09,891/- (Rupees Two Lakhs Nine Thousand Eight Hundred and Ninety One Only) + Interest + Future Interest + Incidental Expen Costs + Other Charges etc. thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Property Owned by: Shri Ajay Singh Residential Building: Flat No: F-1 First Floor, LIG Plot No S-5, Shalimar Garder

Extension-2, Block A, Village Pasonda Loni Ghaziabad-201005 Date: 30.05.2022

Place: South Ext-I (New Delhi)

CMS FINVEST LIMITED Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 E:cmsfinvesttd@gmail.com, W: www.cmsinfotech.co.in Phone: 91-33-4002 2880, Fax: 91-33-2237 9053 CIN:L67120WB1991PLC052782

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

		(RS. III Lacs)					
SL	Particulars	Quarter Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)			
1	Total Income from Operations	81.74	100.76	40.09			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	51.90	65.65	28.51			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	51.90	65.65	28.51			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	51.90	49.85	26.66			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	54.31	46.10	50.75			
6	Equity Share Capital	1399.59	1399.59	1399.59			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-			
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic:	0.02	0.36	0.19			
	2. Diluted	0.02	0.36	0.19			

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financia Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.cse-india.com and on the Company's website: www.cmsinfotech.co.in

b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial itém(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c)# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

By order of the Board For CMS FINVEST LIMITED Sd/- Surendra Kumar Jain Place : Kolkata Managing Director DIN NO. 00166852 Date: 27th May, 2022

Form No. 5 **Debts Recovery Tribunal** 600/1, University Road, Near Hanuman

गांशोधिन निनगा

Setu Mandir, Lucknow (Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh Summons for filing Reply & Appearanc by publication

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993) O.A. No. 220 of 2020

PUNJAB NATIONAL BANK (e-OBC) Versus **DEVENDRA SHUKLA AND ANOTHER**

Devendra Shukla Son of R.S. Shukla and Smt. Leela Shukla Wife of Devendra Shukla Resident of M-14-B, Sector-23, Sanjay Nagar, Ghaziabad

n the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 01-06-2022 at 10.30 A.M failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

Form No. 5 **Debts Recovery Tribunal** 600/1, University Road, Near Hanum Setu Mandir, Lucknow

Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh Summons for filing Reply & Appearance by publication

Date ...

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts ry Tribunal (Procedure Rule, 1993) O.A. No. 218 of 2020

PUNJAB NATIONAL BANK (e-OBC) VersusApplicant M/S KUMAR ENTERPRISES AND OTHERSDefendants

I. M/s Kumar Enterprises through its proprietor Mr. Pradeep Kumar, F-42 Bulandshahar Road, Industrial Area. Ghaziabad

2. Mr Pradeep Kumar Son of Jageer Singh, Resident of 186 Rajapur, Ghaziabad, U.P.

3. Mrs. Kajal Baveja Wife of Sri Gautam Baveja, Resident of 1-22 Lajpat Nagar, New Delhi

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in nis Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 01-06-2022 at 10.30 A.M. failing which the application shall be hear

nd decided in your absence. Registra Debts Recovery Tribunal, Lucknow



OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-II

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, PATEL CHOWK, NEW DELHI-11001 RC No. 677/2018 E-AUCTION SALE NOTICE

HDFC Versus Ashok Kumar & Anr. "ORDER"

As per my order dated 12.05.2022 the under mentioned property will be sold by e-auction sale in the matter of HDFC Bank Vs. Ashok Kumar & Anr. The auction sale will be through "online e-auction" through "website http://www.auctiontiger.net.
Date and Time of Auction: 25.08.2022 between 03.00 PM to 04.00 PM (With auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing, if required).

Property Description Reserve Price / EMD istration No. DL1GC6028, Chassis No. MAT457403F7G12665 and Engine No. 497TC92GUY827964 EMD: Rs. 42,750/

TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS

Auction/bidding shall only be through online electronic mode through the website.

The intending bidders should register the participation with the service provider-well in advance and get user ID and password for participating in E-auction. It can be procured only when the requisite earnest money deposit be paid by prescribed mode.

EMD shall be deposited by 23.08.2022 by way of DD/pay order in favour Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi to be deposited with Recovery Officer-III, DRT-III, Delhi in the sealed cover. EMD deposited thereafter shall not be considered for participation in the e-auction.

The copy of PAN card, Address proof and identity proof, E-mail ID, Mobile No. and declaration if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be regionized to deposit their authority, and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation/altomey of the company and the receipt/ counter file of such deposit should reach to the said service provider of CH Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi.

Prospective bidder may avail online training from service provider. a-auction and bidding shall take place through On line Electronic Bidding' through

Prospective bidder may avail online training from service provider. a-auction and bidding shall take place through On line Electronic Bidding" through Prospective broker may avail online relating from service provider M/s. e-Procurement rach place should former execution broken brokes website-http://www.drt.auctiontiger.net through service provider M/s. e-Procurement Technologies Ltd. (ABC Procure), A-201/208, Wall Street-II Opp. Orient Club Near Gujarat College, Ellis Bridge, Ahemedabad-380006 Gujarat (India) Tel.: +91 079 61200594/598/568/587/538. In case of any auction related query, Contact Mr. Ram Sharma Mobile No. 8000023297 email: delhi@Auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. For further details contact: Sh. Sagar Juneja, Officer of CH Bank, having Mobile No.: 9625886882, e-mail: sagar.juneja@hdfcbank.com

Prospective bidder are advised to go through the website https://www.auctiontinger.net for detailed terms and The property shall not be sold below the reserve price.

The bidder shall improve offer in multiple of Rs. 15,000/-The property shall be sold "As is Where is Basis And As is What is Basis".

The property shallbe sold "As Is Where Is Basis And As is What Is Basis".
 The Successful bidder shall have to pay 25% of the sale proceeds after adjustment of EMD on being knocked down by nest day i.e., by 3:00 P.M. by same mode as per detail mentioned in para 3 above. If the next day is Holiday or Sunday, then on next first office day.
 The successful highest bidder shall deposit the balance 75% of final bid amount on or before 15th day from the date of sale of the property. If the 15th day is Sunday or other Holiday then on the first bank working day after the 15th day by prescribed mode as stated in above para. In addition to the above the purchaser shall also deposit poundage fee with Recovery Officer-II, DRT-III @ 2% upto Rs. 1,000/- and @1% of the excess of sale amount of Rs. 1,000/- through DD in favour of Registrar, DRT-III, Delhi.
 In case of default of payment within the prescribed period, the deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or the amount deposited. The property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. Further the purchaser shall also be liable to make good of any shortfall or difference between his final bid amount and the price for which it is subsequently sold.
 The Recovery Officer has the absolute right to accept or reject any bid or bids or to postpone or cancel the e-auction without assigning any reasons.
 Unsuccessful bidder/s are directed to file an application along with identity proof in the Registry of DRT-III on or before the schedule date of hearing of

The Recovery Officer has the absolute right to accept or reject any bid or folds or to postpone or cancet the e-auction without assigning any reasons.
 Unsuccessful bidder/s are directed to file an application along with identity proof in the Registry of DRT-III on or before the schedule date of hearing of the RC for refund of their EMD which shall be refunded on the schedule/subsequent date of hearing of the RC accordingly.
 CH Bank to publish the e-auction notice in English as well Vernacular language in the news papers Widely circulates in the area/having sufficient circulation in the locality where the property situated and CDs reside or work for gain. C.H. Bank may also give wide publicity by way of circulating Pamphlets and Beat of Drum etc. till the date of auction and submit a report to this Tribunal.
 There is no detail of revenue/encumbrance or claim against the properties in the knowledge of undersigned at this stage. However, prospective bidders are advised to make their own due diligence w.r.t. dues of electricity /water/house tax bills or any other encumbrance etc., in their own interest, before deposit of EMD.

18. There is no details of BSES/NDPL/BYPL outstanding dues against the properties in the knowledge of undersigned at this stage. However, prospective bidders are advised to make their own due diligence w.r.t. dues of electricity/water/house lax bills or any other encumbrance etc. in their own interest before deposit of EMD.

CH bank is directed to authenticate the veracity of the paras hereinabove.

Matter be listed for filing affidavit of service of sale proclamation and for further proceedings on 08.08.2022.

(SHISHIR KR, TRIVEDI) RECOVERY OFFICER-II, DRT-III, DELHI

JAIPRAKASH

Regd. Office: Sector 128, Noida 201 304 [U.P] Head Office: "JA House", 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057 **Phone**: + 91 (120) 4609000; **FAX**: + 91 (120) 4609464; **CIN**: L14106UP1995PLC019017 Website: www.jalindia.com, E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

		STAND	ALONE
SI. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2022 [Audited]	Year Ended 31.03.2021 [Audited]
1.	Total Income from Operations	422006	434287
2.	Net Profit / (Loss) for the period [before Tax, Exceptional and Extraordinary Items]	(119858)	(24434)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(121664)	(25717)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax [after Exceptional and/or Extraordinary Items]	(123188)	(27140)
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(123018)	(26447)
6.	Paid up Equity Share Capital [of ₹ 2/- per share]	49092	48885
7.	Other Equity [excluding Revaluation Reserve]	589764	713050
8.	Net Worth	71030	194109
9.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1830758	1868097
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-
11.	Debt Equity Ratio	4.14	3.24
12.	Earnings Per Share [of ₹ 2/- per share] [for continuing and discontinued operations]:		
	Basic	₹ (5.02)	₹ (1.11)
	Diluted	₹ (5.02)	₹ (1.11)
13.	Capital Redemption Reserve	113	113
14.	Debenture Redemption Reserve	-	-
15.	Debt Service Coverage Ratio [DSCR]	0.03	0.88
16.	Interest Service Coverage Ratio [ISCR]	0.04	1.17

Notes

Place: Anoopshahr

Dated: 29th May, 2022

[a] The above is an extract of the detailed format of Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges Website www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website www.jalindia.com.

For the items referred in sub clause (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges Website www.nseindia.com and www.bseindia.com and can be accessed on the Company's Website, www.jalindia.com.

Formulae for computation of net worth and ratios are as follows: Net Worth is as per Section 2(57) of Companies Act, 2013, DSCR = Earnings before interest and tax excluding exceptional items / (Interest Expense + Principal Repayment of long term debt made during the period). ISCR = Earnings before interest and tax excluding exceptional items/interest

> AYPEE NO DREAM TOO BIG -

MANOJ GAUR **Executive Chairman** DIN 00008480



ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED (Owners of Hotel Hyatt Regency Delhi)

CIN: L55101DL1980PLC011037, Registered Office: Bhikaiji Cama Place, M.G. Marg, New Delhi-110 066 Tel: 011 66771225/1226, Fax: 011 26791033

Email: investorrelations@ahlnorth.com: Website: www.asianhotelsnorth.com

EXTRACTS OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(Rs. in Lakhs except for EPS)

Ш					Standalone			Consolidated				
Ш			(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
	S. No.	Particulars	Three months ended 31/03/2022	Three months ended 31/12/2021	Corresponding three months ended 31/03/2021	Year ended 31/03/2022	Year ended 31/03/2021	Three months ended 31/03/2022	Three months ended 31/12/2021	Corresponding three months ended 31/03/2021	Year ended 31/03/2022	Year ended 31/03/2021
	1	Total Revenue	3,676.43	4,758.43	3,124.28	13,461.66	7,444.97	3,691.90	4,758.43	3,362.80	13,477.13	7,725.93
	2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	(4,203.37)	(2,029.78)	(3,628.96)	(12,481.15)	(12,598.10)	(4,192.94)	(2,029.32)	(3,833.46)	(12,484.07)	(12,582.10)
	3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(4,203.37)	(2,029.78)	(60,543.68)	(12,481.15)	(69,512.82)	(4,496.50)	(2,486.63)	(60,748.18)	(45,383.01)	(69,496.81)
	4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(4,203.37)	(2,029.78)	(61,561.25)	(12,481.15)	(69,513.58)	(4,496.50)	(2,486.63)	(61,765.75)	(45,383.01)	(69,497.58)
	5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(4,663.09)	(1,528.65)	(19,206.28)	(12.439.74)	(27,158.61)	(4,956.22)	(1,985.50)	(19.410.78)	(45,341.60)	(27,142.61)
ľ	6	Paid–up equity share capital (Face Value – Rs.10/- each)	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	, ,	1,945.33
	7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualized):										
		- Basic (in Rs.)	(21.61)	(10.43)	(316.46)	(64.16)	(357.34)	(23.11)	(12.78)	(317.51)	(233.29)	(357.25)
		- Diluted (in Rs.)	(21.61)	(10.43)	(316.46)	(64.16)	(357.34)	(23.11)	(12.78)	(317.51)	(233.29)	(357.25)

The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. These financial results were reviewed by the Audit Committee, and were approved by the Board of Directors, in their respective meetings held on May 28, 2022. The full text of the aforesaid results is available

on the Company's website: - http://asianhotelsnorth.com and on the Stock Exchange websites: - www.bseindia.com and www.nseindia.com

By order of the Board of Directors Asian Hotels (North) Limited **AMRITESH JATIA CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR** DIN - 02781300

Place: New Delhi Date: 28.05.2022

Date : 30.05.2022 Place : New Delh

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Email: sbi.16683@sbi.co.in Home Loan No. 10004230163

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार) अचल संपत्ति के लिए चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भौतर सचना में वर्णित राशि रु. 2.09.891 🗸 – (रुपए दो लाख नौ हजार आठ सौ इक्यानवे केवल) + ब्याज + भावी ब्याज + आकस्मिक व्यय + लागत + अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए ऋणी श्री अजय सिंह, फ्लैट नं. एफ-1. पहली मंजिल. एलआईजी प्लॉट नं. एस—5, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन—2, ब्लॉक—ए, गांव पसोंडा **लोनी गाजियाबाद—201005** को बुलाने के लिए मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतदद्वारा ऋणी / गारंटर और सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **25 मई 2022** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी / गारंटर और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन ए. 2,09,891 / - (रुपए दो लाख नौ हजार आठ सौ इक्यानवे केवल) + ब्याज + भावी ब्याज + आकस्मिक व्यय + लागत + अन्य शुल्क के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार का विषय होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के स्वामी : श्री अजय सिंह **आवासीय बिल्डिंग :** फ्लैट नं. एफ-1. पहली मंजिल, एलआईजी प्लॉट नं. एस-5, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—2, ब्लॉक ए, गांव पसोंडा लोनी गाजियाबाद—201005

दिनांक : 30.05.2022 स्थान : साउथ एक्स.—। (नई दिल्ली) प्राधिकृत अधिकारी

PUBLIC NOTICE

It is informed that the under noted share certificates along with related share transfer documents have been misplaced and are not traceable.

Shareholder: Sh. Avneesh Kumar Singh; Folio No – A-001; Certificate No (Distinctive Nos) - 001(01-100); 002(101-200); 003(201 - 300); 006(140301 - 245300); 007(245301-295300); 008(295301-355300); 010(405301-480300); 013(670301-760300); 014(760301-810300); 015(810301-860300); 016(860301-905300); 017(905301-952800); 018(952801-1042800); 021(1152801-1202800); 022(1202801 1302800): 023(1302801-1352800): 024(1352801-1397800): 025(1397801-1427800) 026(1427801-1477800); 027(1477801-1550300); 028(1550301-1590300); 029(159030 1700300): 030(1700301-1750300): 032(1836701-1864000): 033(1864001-1884300) 034(1884301-1920000); 035(1920001-1980000); 036(1980001-2040000); 038(2116201 2131000); 039(2131001-2210000); 040(2210001-2250000); 041(2250001-2370000) 045(2645001-2685000); 046(2685001-2785000); 047(2785001-2835000); 048(2835001 2935000); 054(3394001-3414000); 056(3459001-3659000); 057(3659001-3719000) 059(3869001-3979000): 061(4429001-4579000): 062(4579001-4679000): 065(495000 5000000); 066(5000001-5100000); 067(5100001-5200000); 068(5200001-5530000) 071(5610001-5660000); 073(5760001-5820000); 076(6041001-6141000); 078(6201001 6251000); 079(6251001-6321000); 081(6381001-6531000). Shareholder: Vishar Chandra Verma; Folio No – V-001; Certificate No (Distinctive Nos) – 020(1102801. 1152800); 044(2495001-2645000); 049(2935001-2985000); 055(3414001-3459000) 063(4679001-4850000). Shareholder: Jatin Verma; Folio No – J-003; Certificate No (Distinctive Nos) – 004(301-90300); 012(530301-670300); 050(2985001-3035000); 053(3344001-3394000); 082(6531001-6581000) Shareholder: Asheesh Kumar Singh Folio No - A-007: Certificate No (Distinctive Nos)-011(480301-530300): 052(3244001 3344000); 058(3719001-3869000); 075(5861001-6041000). Shareholder: Anshul Suryavanshi; Folio No – A-008; Certificate No (Distinctive Nos) – 043(2445001-249500) 064(4850001-495000); 070(5560001-5610000) Shareholder: Nitin Kumar Verma; Folio No - N-007; Certificate No (Distinctive Nos) - 051(3035001-3244000); 072(5660001-5760000); 074(5820001-5861000). Shareholder: Abhinav Kumar Singh; Folio No – A-010 Certificate No (Distinctive Nos) – 060(3979001-4429000); 080(6321001-6381000) Shareholder: Bal Kishor Verma; Folio No – B-002; Certificate No (Distinctive Nos) 031(1750301-1836700) Shareholder: Anita; Folio No – A-003; Certificate No (Distinctive Nos) – 037(2040001-2/116200) Shareholder: Venus Satiate Vehicles Services Pvt. Ltd. Folio No – V-007;Certificate No (Distinctive Nos) – 005(90301-140300); 009(355301 405300); 019(1042801-1102800); 042(2370001-2445000); 069(5530001-5560000) 077(6141001-6201000); 083(6581001-6741000)

The Company invites claims and objections from claimants / objector or objectors for issuance of duplicate Share Certificate(s) within the period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his / her/ their claims / objections for issuance of duplicate Share Certificate to The Manager, SNG Developers Ltd, Flat No 112, Indraprakash Building, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001. If no claims / objections are received within the period prescribed above, the Company shall be free to issue duplicate Share Certificate in such manner as is provided under the provisions of law.

For and on behalf of SNG Developers Ltd

समाचारपत्र विज्ञापः समक्ष केंद्र सरकार

कंपनी पंजीयक, दिल्ली सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप—धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियमावली,

2009 के नियम 17 के मामले में । मित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा २, व्यव्या नागादारा आधानेयम, 2008 की घारा 13(3) और **होम ब्रीम एसोशिएट्स एलएलपी,** पंजीकृत कार्यालयः मकान नं. 130, भूतल, पॅकिंट 1, सेक्टर 24, रोहिणी दिल्ली—110085

पतिवाराता प्रतिकृत कार्यालय को सुवित किया जाता है कि अपने पंजीकृत कार्यालय को 'दिस्ती' राज्य से 'पंजाब' राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एलएलपी सीमित देवना सामाचित अविनियम 2008 की धारा 13(3) के तहत कंपनी पंजीयक, दिल्ली को यायिका करने के प्रतिकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होता है तो वह इस सुचना प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रतिकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होता है तो वह इस सुचना प्रकार के प्रकार करना है। तो प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार करना है। तो से प्रकार के प्रवित करना के प्रकार के प्रकार

स्थानः दिल्ली

📵 पूर्वोत्तर रेलवे

ई-टेन्डरिंग निविदा सचना सं. 27/2022 भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिय मंडल रेल प्रबन्धक (इंजी.) पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर निम्नलिखित कार्य हेत् आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से "खुली" निविदा आमंत्रित करते है।

क्र.सं.1. कार्य का विवरणः इज्जतनगर मंडल म दिनांक 24.05.2022 को चौबेपुर में पटरी से उतरने के संबंध विविध ट्रैक कार्य। अनुमानित लागतः ₹ 14,20,144.60, बयाना राशिः 28.400/-, निविदा प्रपत्र का मूल्यः शून्य स्वीकति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह।

. ई-निविदा दिनांक 10.06.2022 को 15.00 बजे तक आन लाइन जमा कर सकेंगे। 2. ई निविदा की प्रस्तुति हेतु पूर्ण विवरण भारतीय रेलवे के IREPS वेबसाईट www.ireps gov.in पर देखें। मंडल रेल प्रबंधक (इंजी.) मुजाधि/डब्लू-51

यात्री सुविधा संबंधित शिकायत हेतु मो. नं.: 09794845955 पर एसएमएस करें



Insight Out

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

सार्वजनिक सूचना नकल करने वालों / धोखेबाजों से सावधान

हमारे संज्ञान में आया है कि कछ धोखेबाज/अपराधी तत्व/नकल करने वाले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रतिनिधि के रूप में खद को गलत तरीके से प्रस्तत कर रहे हैं और सस्ती दरों पर ऋण के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं। वे जनता के सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक** के साथ खोले ग बैंक खाते में प्रसंस्करण शुल्क, स्टेम्प ड्यूटी शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क जमा करने की सलाह देते हैं। हम जनता के सदस्यों को इस तरह के किसी भी नकली संचार / गलत बयानी से अवगत होने और ऐसे किसी भी प्रस्ताव / प्रस्तावों पर विचार करने से बचने के लिए सावधान करते हैं। यह भी देखा गया है कि ये व्यक्ति/संस्थाएं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोगो (जैसा कि ऊपर शीर्ष लेख में दिखाया गया है) का अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं। जबकि बैंक ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ आवश्यक कानुनी कार्रवाई शुरू कर रहा है, जनता के सदस्यों को इस तरह के भ्रामक प्रस्तावों के शिकार न होने की सलाह दी जाती है। किसी भी सहायता/स्पष्टीकरण के लिए आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक सेवा से 1800 123 9878/1800 208 1788 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक** ऐसे धोखेबाजों / आपराधिक तत्वों के गलत बयानी / कृत्यों के कारण किसी भी ग्राहक / जनता के सदस्यों को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

एडे लावाई स एसेट रिवान्स्ट्वाशान वांत्रपनी लिामिटेड ("ईएआरसी") (CIN:U67100MH2007PLC174759) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार विशाल गौतम; आरझेड-146, ए गली नं 1, मध्य मार्ग, जगदम्बा रोड, तुगलकाबाद एक्सटेंशन कालकाजी, नई दिल्ली, दिल्ली-110019, विशाल गौतम; 423/5बी, एफ/एफ, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली -110019, विशाल गौतम; 423/5बी, एफ/एफ, गोविंदपरी, कालकाजी, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110019, मनीषा कौशिक: 423/5बी, एफ/एफ, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली -110019, 0, को 20.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00469298 की राशि रू.14,39,224.18 (रूपये चौदह लाख उनतालीस हजार दो सौ चौबीस और अट्ठारह पैसे मात्र) और 23.03.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचन दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानन की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 25.05.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.14,39,224.18 (रूपये चौदह लाख उनतालीस हजार दो सौ चौबीस और अदारह पैसे मात्र) 23.03.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ईएआरसी ट्रस्ट - एससी 432 के ट्रस्टी के

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पॉकेट-बी1,दूसरी मंजिल, फ्लैट नंबर-271, सिरसपुर, नई दिल्ली - 110045, दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी

(रु. लाख में)

दिनांक : 25.05.2022 एडलवाइस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली ईएआरसी ट्रस्ट - एससी 432 के ट्रस्ट्री के रूप में

Engineering Life

Date : 30.05.2022 Place : New Delh

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड

सीआईएन: L40106DL1981PLC012228

पंजीकृत कार्यालयः एफ-27/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण- ॥, नई दिल्ली- 110020

वेबसाइट: www.spml.co.in, ईमेल-आईडी: cs@spml.co.in

	स्टैं डअलोन						समेकित					
सम	समाप्त तिमाही समाप्त वार्षिकी				विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वार्षिकी			
31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021		1441-1		31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित			अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
22,798.95	24,859.08	18,897.87	85,309.69	61,539.17	1.	प्रचालनों से कुल आय	24,174.05	27,601.22	21,142.29	95,177.28	68,285.34	
631.03	355.26	(2,081.80)	886.03	(639.14)	2.	अवधि का शुद्ध लाम (कर, आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व #)	(508.27)	337.32	(2,067.55)	(192.98)	(1,108.48)	
631.03	355.26	(2,081.80)	886.03	(639.14)	3.	अवधि का कर पूर्व शुद्ध लाभ (कर, आपवादिक तथा/ अथवा असाघारण मदों के उपरान्त #)	(508.27)	337.32	(2,067.55)	(192.98)	(1,108.48)	
367.24	250.89	(3,523.03)	998.06	(10,717.42)	4.	अवधि का कर उपरान्त शुद्ध लाम (आपवादिक तथा/ अथवा असाधारण मदों के उपरान्त #)	(598.87)	108.82	(4,420.29)	32.19	(11,720.71)	
362.21	239.88	(4,080.78)	976.87	(11,247.63)	5.	अवधि की कुल व्यापक आय	(603.91)	97.81	(4,957.05)	10.99	(12,229.93)	
874.95	819.45	819.45	874.95	819.45	6.	इक्विटी शेयर पूँजी	874.95	819.45	819.45	874.95	819.45	
					7.	आय प्रति अंश (रू. 2 प्रत्येक की) रू. में						
0.82	0.68	(9.61)	2.68	(29.24)		मूल एवं घटाकर	(1.61)	0.30	(12.06)	0.09	(31.98)	

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वार्षिकी के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के पास उपरोक्त अविध में रिपोर्ट करने के लिए कोई असाधारण और असाधारण मद नहीं है।

1. उपरोक्त 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही / वार्षिकी के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक विवरण है, जो सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है। पूर्ण 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही / वार्षिकी के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज (ओं) की वेबसाइटों अर्थात एनएसई की www.nseindia.com और बीएसई www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट वेबसाइट www.spml.co.in पर उपलब्ध है।

2, 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही / वार्षिकी के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया था।

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के लिए हस्ता.— सुभाष चंद सेठी

(12.78)

(23.11)

(317.51)

दिनांकः 29 मई, 2022 स्थानः कोलकाता

डीआईएनः 00464390



कार्यालय वसली अधिकारी-II चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001 ई–नीलामी बिक्री सूचना आर.सी. सं. 677/2018

दिनांकित : 12.05.2022 <u>एचडीएफसी बनाम अशोक कुमार और अन्य</u>

भेरे आदेश के अनुसार दिनांक 12.05.2022 के तहत उल्लेखित संपत्ति एचडीएफर्सी बैंक बनाम अशोक कुमार एंड अन्य के मामले में ई-नीलामी बिक्री द्वारा बेची जाएगी। नीला बिक्री वेबसाइट :<u>https://www.auctiontiger.net</u> के माध्यम से ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से होगी। नामी की दिनांक और समय **28.08.2022** को अर्पाह्न 03:00 बजे से अर्पाह्न 4.00 बजे तक (बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में सब विस्तार खंड के साथ

संपत्ति विवरण आरक्षित मूल्य/ईएमडी क्र.सं. टाटा 1109,पंजियन सं.डीएल1जीसी6028, चैसीस सं. एमएटी 457403 एफ7जी रूपये 4,27,500/-12665 और इंजिन सं. 497टीसी92जीयुवाय827964

ईएमडी : रू.42.750

नियम और शर्तें

नीलामी / बोली केवल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से होगी नाताना ने बाता करता चनताइट के नाट्यन ने जानताइन इंक्स्पूर्णाचिक्ताइड के किया ने मान के ने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना इच्छुक बोलीवाओं को सेवा प्रवादा के साथ मागीवारी को पढ़ते में पंजीकृत करना चाहिए और **ई-नीलामी** में भाग लेने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इसकी खरीद तभी की जा सकती है जब अपेक्षित बयाना धन जमा करने पर निर्धारित मोड से मुगतान किया जा सके। ईएमडी दिनांक 23.08.2022 तक डीडी/पेय आईर के माध्यम से वसूली अधिकारी–॥, डीआरटी–॥।, दिल्ली के पक्ष में जमा किया जाएगा, वसूली अधिकारी–॥,

डीआरटी–III. दिल्ली के पास सीलबंद कवर में जमा किया जाएगा। इसके बाद जमा किए गए ईएमडी को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नहीं माना जाएगा

बोली आवंदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-भेत आईडी, भोबाईल सं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा, अथवा इसमें चूक करने पर बोली निरस्तर कर दी जायेगी। कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई—मेल या अन्य रूप से उक्त दिनांक तक पहुंच जाए तथा उसकी मल कॉपी, वसली अधिकारी—II, डीआरटी—III, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तत व

जाएगी। संभावित बोलीवाता सेवा प्रवाता ई-नीलामी से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है और वेबसाइट : https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग' बोली लगाई जाएगी: सेवा प्रवाता ई-नीलामी और बोली के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग के माध्यम से https://drt.auctiontiger.net सेवा प्रवाता मंसर्स ई-प्रोक्योरपेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एवीसी प्रोक्योर), ए-201/208, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) फोन: + 9107961200594/598/568/587/538 द्वारा होगी।नीलामी से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, श्री पास शर्मा मीवाइल सं. 8000023297 ईमेल: delhi@Auctiontiger.net, support@auctontiger.net से संपर्क करें। संपत्ति के किसी भी प्रश्न और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक खरीदार सीएव वैंक के अधिकारी श्री सागर जुनेजा से संपर्क कर सकता है, जिनके पास मोबाइल नंबर 9825886882, ई-मेल:sagar.juneja@hdfcbank.com है।

समाप्तव बालादाता का सलाह दा जाता है कि व उ http://www.drt.auctiontiger.net का संदर्भ हों। संपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा। बोलीदाता रूपये 15,000/–के गुणक में प्रस्ताव में सुधार करेगा।

बालाचार राज्य 15,000/- क्यु अध्यार त्रस्ताचन सुवार क्यां। स्पत्ति की बिठी <mark>'जो हे जहां हे आधार जो है जंसा है आधार' '</mark>पर की जा रही है। स्फल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के **अपांह, 33,00 बजे तक** ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंति **बोली राशि के 25% का** मुगतान करना होगाआगर अगला दिन रविवार या छुट्टी का दिन हो, तो अगले कार्यलय दिवस के दिन।

सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की दिनांक से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा **यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है** तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में **अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुँगतान करना होगा** उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को **रू. 1000/– तक 2% की दर से तथा रू** 1000/— की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी—III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी—III, डीआरटी—III, के पास पाउंडेर

असफल संविद्याकार अपने ईएमडी के रिफंड हेतु आरसी की सुनवाई की अगली निर्वारित दिनांक को या इससे पूर्व डीआरटी—III, की रजिस्ट्री में अपने पहचान प्रमाण के साथ आवंदन दाखिल करें जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूची/आगामी दिनांक को वापस कर दिया जायेगा। सीएव बैंक समाचार पत्रों में अंग्रेजी में ई—नीलामी सूचना प्रकाशित करने के साथ—साथ क्षेत्र में स्थानीय भाषा में व्यापक रूप से प्रसारित होता है। उस इलाके में पर्याप्त परिसंचरण होना जहां स्थित संपत्ति और सीडी शहते हैं या लाभ के लिए काम करते हैं। सीएच, बैंक नीलामी की दिनांक तक पर्य और ड्रम आदि की बीट प्रसारित करके व्यापक प्रचार भी दे सकता

है और इस अधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। इस स्तर पर अवोहस्ताक्षरों के ज्ञान में संपत्तियों के खिलाफ राजस्व / भार या दावे का कोई विवरण नहीं है। हालांकि, संभावित बोलीदाता को जमा या ईएमडी से पहले अपने हित में बिजली / पानी / गृह कर बिल या किसी अन्य भार आदि के बकाया को जानने का अपना यथोवित परिश्रम करने की, संभावित बोलीदाता को जमा या संस्तर पर अदोहस्ताक्षरों के ज्ञान में संपत्तियों के खिलाफ बीएसईएस / एनडीपीएल / बीवायपीएल के बकाया का कोई विवरण नहीं है। हालांकि, संभावित बोलीदाता को जमा या

इस रिपर अजिस्टरी अपने हित में बिलाजी के बात के स्वार्थ के स्वार्थ के काया को जानने का अपना यथीचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। सीएच को इसके बाद पारस की सत्यता को प्रमाणित करने का निर्देश दिया गया है। मामले को बिक्री उद्धोषणा की सेवा का हलफनामा दाखिल करने और दिनांक 08.08.2022 को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्धकिया जाए।

(शिशिर कुमार त्रिवेदीा) वसली अधिकारी-।, डीआरटी-।।। दिल्ली

HCL INFOSYSTEMS LIMITED

CIN: L72200DL1986PLC023955

Regd. Office: 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi - 110 019 Phone number: +91 120 2520977, 2526518-19; Fax: +91 120 2523791 Website: www.hclinfosystems.in; Email ID: cosec@hcl.com

Extract of Statement of Audited Consolidated Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2022 ₹in Lakh

SI No.	PARTICULARS	Quarter ended 31-Mar-22	Quarter ended 31-Mar-21	Year ended 31-Mar-22	Year ended 31-Mar-21
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	2,588	12,202	11,098	46,602
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(1,882)	(3,986)	(7,577)	(19,475)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(2,057)	(3,986)	2,574	(19,475)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(2,179)	(4,184)	2,452	(19,673)
5.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations	-	-	-	-
6.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations, including disposal	-	-	-	-
7.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(2,179)	(4,184)	2,452	(19,673)
8.	Total comprehensive income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(2,190)	(4,186)	2,497	(19,793)
9.	Paid up equity share capital	6,584	6,584	6,584	6,584
10.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				
11.	Earnings Per Share (of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic :	(0.66)	(1.27)	0.74	(5.98)
	Diluted:	(0.66)	(1.27)	0.74	(5.98)
Т	ne summary of Audited standalone financial results	for the re	levant per	iods are as	follows

				₹ in Lakns
	Quarter	Quarter	Year	Year
PARTICULARS	ended	ended	ended	ended
TAILITOETHO	31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations	1,276	2,158	3,756	24,099
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items	(1,441)	(1,188)	(4,793)	(11,388)
Net Profit/(Loss) for the period before tax and after exceptional items	(2,139)	(4,551)	2,468	(20,476)
Profit/(Loss) after tax and after exceptional items	(2,139)	(4,551)	2,468	(20,476)
Total comprehensive income for the period [comprising Profit/(Loss)	(2,164)	(4,576)	2,443	(20,501)
for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]				

endation by the Audit Committee, these results have been approved and taken on record by the Board of Directors a its meeting held on May 28, 2022. The results have been subjected to a limited review by the statutory auditors

2). The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and standalone Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and also available at the company's website www.nseindia.com) and <a href="www.nseindia.com" By order of the Board

Place: Noida Date: May 28, 2022

Chairperson HCL

HCL INFOSYSTEMS

for HCL Infosystems Limited



एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

(स्वामित्वः हायट् रिजेन्सी दिल्ली)

सीआईएनः L55101DL1980PLC011037, पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली—110066, टेलीफोनः 011 66771225/1226, फैक्सः 011 26791033

ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com; वेबसाइटः www.asianhotelsnorth.com 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेत् एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (₹ लाखों में प्रति अंश आय को छोडकर)

			एकल					समेकित				
	विवरण	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
क्र स		31.03.2022 को समाप्त तीन माह	31.12.2021 को समाप्त तीन माह	31.03.2021 को समाप्त तदनुरूपी तीन माह	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त तीन माह	31.12.2021 को समाप्त तीन माह	31.03.2021 को समाप्त तदनुरूपी तीन माह	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
1	कुल आय	3,676.43	4,758.43	3,124.28	13,461.66	7,444.97	3,691.90	4,758.43	3,362.80	13,477.13	7,725.93	
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर एवं विशिष्ट मदों के पूर्व)	(4,203.37)	(2,029.78)	(3,628.96)	(12,481.15)	(12,598.10)	(4,192.94)	(2,029.32)	(3,833.46)	(12,484.07)	(12,582.10)	
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट मदों के पश्चात्)	(4,203.37)	(2,029.78)	(60,543.68)	(12,481.15)	(69,512.82)	(4,496.50)	(2,486.63)	(60,748.18)	(45,383.01)	(69,496.81)	
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट मदों के पश्चात्)	(4,203.37)	(2,029.78)	(61,561.25)	(12,481.15)	(69,513.58)	(4,496.50)	(2,486.63)	(61,765.75)	(45,383.01)	(69,497.58)	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात्)											
	तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	(4,663.09)	(1,528.65)	(19,206.28)	(12,439.74)	(27,158.61)	(4,956.22)	(1,985.50)	(19,410.78)	(45,341.60)	(27,142.61)	
6	प्रदत्त समता अंश पूँजी (अंकित मूल्य रु 10 प्रत्येक)	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	
7	प्रति अंश आय (रु 10 प्रत्येक) (गैर—वार्षिकृत)											
	मूलभूत (रु. में)	(21.61)	(10.43)	(316.46)	(64.16)	(357.34)	(23.11)	(12.78)	(317.51)	(233.29)	(357.25)	

तरल (रु. में) टिप्पणीः

उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों के पास दाखिल किए गए, तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। इन वित्तीय परिणामों की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है एवं निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2022 को आयोजित उनकी सम्बंधित बैठक में अनुमोदित किया गया। उपरोक्त परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelsnorth.com एवं स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइटों www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

(64.16)

(357.34)

(316.46)

(10.43)

(21.61)

निदेशक मंडल के आदेश से एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड अमतेश जटिया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन - 02781300

(233.29)

(357.25)

दिनांकः 28.05.2022

जय ऊशिन लिमिटेड

सीआईएनः एल52110डीएल1986पीएलसी025118 जीआई-48. जी.टी. करनाल रोड. इंडस्टियएल एरिया. दिल्ली-110033 फोनः 011-43147700 । ई-मेलः julinvestors@jushinindia.com वेबसाइटः www.jpmgroup.co.in

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोल्लिखित शेयर सर्टीफिकेट(ओं) खो / गुम गये हैं, जैसा की सुचित किया गया है और शेयर सर्टीफिकेट(ओं) के धारकों ने अनुलिपि शेयर सटींफिकेट जारी करने के लिए कंपनी से आवेदन किया है:

3			•		-	
क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	फोलियो संख्या	सर्टीफिकेट संख्या	शेयरों की संख्या	विशिष्ट संख्या	
1	सुरजीत कुमार नागपाल और	S000908	7629	100	2437401- 2437500	
1	ेग्ना नागापन					

यदि किसी व्यक्ति(यों) को उक्त सर्टीफिकेट(ओं) के संबंध में किसी प्रकार का दावा हो तो वह यह नोटिस प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर कंपनी के शेयर विभाग को जय ऊशिन लिमिटेड, जीआई-48, जी.टी. करनाल रोड, इंडस्ट्रिएल एरिया, दिल्ली-110033 पर संपर्क करें, इसके बाद किसी दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और कंपनी उपरोक्त शेयरधारकों को अनुलिपि शेयर सर्टीफिकेट जारी करने के लिए कार्यवाही करेगी।

हिते जय ऊशिन लिमिटेड हस्ता./-(ज्योति कटारिया) कंपनी सचिव

तिथिः 28 मई, 2022

स्थानः नई दिल्ली